

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2016—चैत्र 13, शक 1938

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

फा. क्र. 20-2014-चार-विधि.निर्वा.-93.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-एम.पी.-एल.ए.- (20-2014)-2016, दिनांक 11 मार्च 2016 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 11th March, 2016, 21 Phalguna, 1937 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(20-2014)-2016.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Bench dated 20th October 2015 in Election Petition No. 20 of 2014 (Dharmendra Singh Tiwari Vs. Dr. Rajendra Kumar Singh) filed by Dharmendra Singh Tiwari challenging the Election of Dr. Rajendra Kumar Singh from 66-Amarpatan Legislative Assembly Constituency of Madhya Pradesh, held in November, 2013.

By order,
Sd/-

(ANUJ JAIPURIAR)

Secretary,

Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2016, 21 फाल्गुन, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स. (20-2014)-2016.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच की निर्वाचन याचिका संख्या 20/2014 (धर्मेन्द्र सिंह तिवारी बनाम डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) जो कि धर्मेन्द्र सिंह तिवारी ने डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह के मध्यप्रदेश के 66-अमरपाटन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 20 अक्टूबर 2015 को दिये गये अधिनिर्णय/आदेश को प्रकाशित करता है.

आदेश से,
हस्ता.
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO. 20 OF 2014

Petitioner

Dharmendra Singh Tiwari, Son of Shri Ganga Singh Tiwari, aged about 40 years, resident of Village Marhi, Police Station Tala, Tehsil Amarpatan, District Satna, M. P.

VERSUS

Respondents

Dr. Rajendra Kumar Singh 'Dada Bhai' Son of Shri Mohan Singh, aged about 63 years, resident of Kothi Pratapgarh Village Judvaniya Post Itma-kothar, Tehsil Amarpatan, District Satna, M. P.

(2) Election Commission of India, Through Chief Election Commissioner, Election Commission of India, Nirvachan Bhawan, New Delhi.

(3) M. P. State Election Commission, Through Election Commissioner, 58 Arera Hills, Bhopal, M. P.

(4) District Election Officer Satna, District Satna, M. P.

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951

FACTS :

(1) That on 5-10-2013, the Election Commission of India issued notification for election to the 14th Legislative Assembly in the State .

ORDER
Election Petition No. 20/2014

20-10-2015

None for the petitioner even when the case is called out in the second round.

Shri Arpan J. Pawar, counsel for the respondents.

The case is posted today for evidence; however, neither petitioner nor any counsel has appeared on his behalf today, though the respondent is represented by his counsel.

In aforesaid circumstances, the petition is dismissed in default of appearance of the petitioner and his counsel.

The petitioner shall bear the expenses of the respondents of this petition.

Let memo of costs be prepared.

Sd/-
(C. V. SIRPURKAR)
Judge.

By order,
Sd/-
(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.